

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2652]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2652]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

का.आ. 3498(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1088 (अ), तारीख 1 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 228.980 कि.मी. से 244.110 कि.मी. (सिरोही सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21 जून, 2013 को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 228.980 कि.मी से 244.110 कि.मी तक (सिरोही सैक्सन) के लिए अर्जन की जाने वाली सरंचना सहित अथवा सरंचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिरोही	पिण्डवाडा	(1) नया सानवाडा	1877/881	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.1381	ग्राम पंचायत आबादी
				1843/859	निजी	कृषिक	0.0100	बाबुराम पुत्र भानाराम कौम ग्रासिया सा.बसन्तगढ
				1845/860	निजी	कृषिक	0.0252	भूरा पुत्र भूदा कौम मेणा सा.देह. खातेदार
				1847/861	निजी	कृषिक	0.0472	वरजू बेवा बाबरा मोहनदास केवलदास गोपालदास पि. बाबरा कौम गुरु सा.देह. खातेदार
				1849/862	निजी	कृषिक	0.0669	मोलिया हीरका गोमा पि. मेधा कौम रेबारी सा.देह खातेदार
				863/2	निजी	कृषिक	0.0291	देवी पत्नि गेनाराम कौम मेघवाल सा. डिगार
				877	सरकारी	गै.कृषिक	0.0279	गे.मु. मगरी राजस्थान सरकार
				1839/878	निजी	कृषिक	0.0565	श्रीमती लालकुंवर धर्मपत्नि मोहबबतहिसंह, मूलसिंह भवरसिंह उदयसिंह पि. मोहबबतसिंह, हवनकुंवर धर्मपत्नि गणपतसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता अचलसिंह, शायरकुंवर पत्नि दौलतसिंह, जोरसिंह राजसिंह पि. दौलतसिंह, कचनकुंवर छेलकुंवर पुत्रिया दौलतसिंह, बलवन्तसिंह पि. अचलसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार ब.हि.ब. रहन बलवन्तसिंह पुत्र अचलसिंह का हिस्सा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरोही के यहां रहन
				879	निजी	कृषिक	0.0735	मु. बाली बैवा भूबा गलीया सांकला हीरा कसना सरूपा नरींगा पि भूबा कौम रबारी सा.देहखातेदार
				880	निजी	कृषिक	0.0755	श्रीमती होलीबाई धर्मपत्नि हीरालाल, प्रागाराम जगदीशकुमार पि. हीरालाल, मतराबाई, सीता, प्यारी बाई पुत्रिया हीरालाल, जुवारमल, छगाराम पि. रूपा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
				1879/1020	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0065	ग्राम पंचायत आबादी
				1897/1025	निजी	कृषिक	0.0019	नेती पुत्र धूला 1/2 जाजु बेवा वणवीरा रेगाराम पुत्र वणवीरा, पूनी हीरी जनु पुत्री वणवीरा, नवीया पुत्र पन्ना टीपू बेवा पोमा हीरा कालिया पि. पोमा 1/2 कौम रेबारी सा. देह खातेदार
				1880/1085	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.1123	ग्राम पंचायत आबादी
				1086	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0284	ग्राम पंचायत आबादी
				1087	निजी	कृषिक	0.0036	अर्जुनपुरी पुत्र माधुपुरी मु.हंजा बेवा माधुपुरी शारदा पुत्री माधुपुरी उमेदपुरी पुत्र सोमपुरी इन्द्रा पुत्री छगनपुरी ना.बा. कौम स्वामी सा.देह खातेदार

			1098	निजी	कृषिक	0.0047	मुला पुत्र दाना कौम जांगीड़ ब्राह्मण सा.देह खातेदार
			1884 / 1099	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0353	ग्राम पंचायत आबादी
			1901 / 1109	निजी	गै.मु.आबादी	0.0136	मूलसिंह ईश्वरसिंह भीमसिंह पि. कैसरसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार
			1110	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0194	ग्राम पंचायत आबादी
			1113	निजी	कृषिक	0.0184	मंछाराम पुत्र छोगा शंकर पुखराज पि. दला नैनाराम मीठाराम मुकेश कुमार पि. वीशा सुमटी बेवा वीशा कौम लखारा सा. देह खातेदार
			1457	सरकारी	गै.कृषिक	0.0588	गै.मु.नाडी राजस्थान सरकार
			1949 / 1472	निजी	कृषिक	0.0176	गोविन्दभाई पुत्र मीठालाल, पटेल नरेन्द्रकुमार पुत्र मणीलाल, पटेल मुकेशकुमार पुत्र रमणलाल जाति पटेल नि. घासकोर गेट वडनगर पटेल गिरीशकुमार पुत्र चिमनलाल जाति पटेल नि. रामजी मंदिर के पास सबलपुर तह. वडनगर जिला महेसाणा खातेदार
			1951 / 1528	निजी	कृषिक	0.0015	लीलाराम हंसाराम पि. भोमा हंजा रेखा पुत्रिया भोमा सविया तलसीया पि. नेता 1/3 श्रीमती लसी पत्नि सवाराम 1/6 श्रीमती पंकूदेवी पत्नि सोमाराम 1/6 सुकी पत्नि देवाराम जगदीश पुत्र देवाराम पूजा पुत्री देवाराम ना.बा. की वली माता सुकी पत्नि देवाराम, शंकरराम पि. दाना अनु बेवा पोमीया मंछी पुत्री पोमीया मु.अनु. बेवा पोमिया कानीया पि. पूनमा 1/3 दली पत्नि सकाराम नेमा पुत्र सकाराम हंजा रकमा पाबू पुत्रिया सकाराम नेमा पाबू ना.बा. की वली माता दली पत्नि सकाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन: दाना पोमिया कानिया सकीया पि. पुनमा हि. 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरोही के यहा रहन
			1529	सरकारी	गै.कृषिक	0.0133	गै.मु.नाडी राजस्थान सरकार
			1955 / 1532	निजी	गै.कृषिक	0.0146	लीलाराम हंसाराम पि. भोमा हंजा रेखा पुत्रिया भोमा सविया तलसीया पि. नेता 1/3 श्रीमती लसी पत्नि सवाराम 1/6 श्रीमती पंकूदेवी पत्नि सोमाराम 1/6 सुकी पत्नि देवाराम जगदीश पुत्र देवाराम पूजा पुत्री देवाराम ना.बा. की वली माता सुकी पत्नि देवाराम, शंकरराम पि. दाना अनु बेवा पोमीया मंछी पुत्री पोमीया मु.अनु. बेवा पोमिया कानीया पि. पूनमा 1/3 दली पत्नि सकाराम नेमा पुत्र सकाराम हंजा रकमा पाबू पुत्रिया सकाराम नेमा पाबू ना.बा. की वली माता दली पत्नि सकाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन : दाना पोमिया कानिया सकीया पि. पुनमा हि. 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

							सिरोही के यहा रहन
			1957 / 1537	निजी	कृषिक	0.0295	लीलाराम हंसाराम पि. भोमा हंजा रेखा पुत्रियाँ भोमा सविया तलसीया पि. नेता 1/3 श्रीमती लसी पत्नि सवाराम 1/6 श्रीमती पंकूदेवी पत्नि सोमाराम 1/6 सुकी पत्नि देवाराम जगदीश पुत्र देवाराम पूजा पुत्री देवाराम ना.बा. की वली माता सुकी पत्नि देवाराम, शंकरराम पि. दाना अनु बेवा पोमीया मंछी पुत्री पोमीया मु.अनु. बेवा पोमिया कानीया पि. पुनमा 1/3 दली पत्नि सकाराम नेमा पुत्र सकाराम हंजा रकमा पाबू पुत्रियाँ सकाराम नेमा पाबू ना.बा. की वली माता दली पत्नि सकाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन : दाना पोमिया कानिया सकीया पि. पुनमा हि. 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरोही के यहा रहन
			1959 / 1538	निजी	कृषिक	0.0554	लीलाराम हंसाराम पि. भोमा हंजा रेखा पुत्रियाँ भोमा सविया तलसीया पि. नेता 1/3 श्रीमती लसी पत्नि सवाराम 1/6 श्रीमती पंकूदेवी पत्नि सोमाराम 1/6 सुकी पत्नि देवाराम जगदीश पुत्र देवाराम पूजा पुत्री देवाराम ना.बा. की वली माता सुकी पत्नि देवाराम, शंकरराम पि. दाना अनु बेवा पोमीया मंछी पुत्री पोमीया मु.अनु. बेवा पोमिया कानीया पि. पुनमा 1/3 दली पत्नि सकाराम नेमा पुत्र सकाराम हंजा रकमा पाबू पुत्रियाँ सकाराम नेमा पाबू ना.बा. की वली माता दली पत्नि सकाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार रहन: दाना पोमिया कानिया सकीया पि. पुनमा हि. 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरोही के यहा रहन
			1553	निजी	कृषिक	0.0773	छोगाराम भेराराम लादाराम पि. अना कौम माली सा. वीरवाडा खातेदार
			1969 / 1554	निजी	कृषिक	0.0729	छोगाराम भेराराम लादाराम पि. अना कौम माली सा. वीरवाडा खातेदार
			1555	निजी	गै.कृषिक	0.0164	छोगाराम भेराराम लादाराम पि. अना कौम माली 1/2 वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला वजा पुत्र धना कौम घांची 1/2 सा. वीरवाडा खातेदार
			1563	निजी	गै.कृषिक	0.0251	वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला, वजा पुत्र धना कौम घांची सा. वीरवाडा खातेदार
			1991 / 1564	निजी	कृषिक	0.0222	वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला, वजा पुत्र धना कौम घांची सा. वीरवाडा खातेदार
			1971 / 1565	निजी	कृषिक	0.0759	छोगाराम भेराराम लादाराम पि. अना कौम माली सा. वीरवाडा खातेदार

			1993 / 1566	निजी	वाणिज्यिक	0.0379	वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला, वजा पुत्र धना कौम घांची सा. वीरवाडा खातेदार
			1995 / 1567	निजी	कृषिक	0.0570	वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला, वजा पुत्र धना कौम घांची सा. वीरवाडा खातेदार
			1997 / 1569	निजी	कृषिक	0.0419	वरदाराम रामलाल देवाराम गोपाल पि. वेला, वजा पुत्र धना कौम घांची सा. वीरवाडा खातेदार
			1570	सरकारी	गै.कृषिक	0.0398	गे.मु.मगरी राजस्थान सरकार
			1571 / 1	निजी	औद्योगिक	0.0238	प्रमिलाकुंवर पत्नि जब्बरसिंह जाति राजपुराहित निवासी मोरखा खातेदार
			1572	निजी	गे.मु. पेट्रोलियम	0.0255	जबरसिंह सतपालसिंह पि. मुकनसिंह उर्फ मगनलाल कौम राजपुरोहित सा. मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली खातेदार
			1981 / 1573	निजी	गे.मु. पेट्रोलियम	0.0228	जबरसिंह सतपालसिंह पि. मुकनसिंह उर्फ मगनलाल कौम राजपुरोहित सा. मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली खातेदार
			1575	सरकारी	गै.कृषिक	0.0021	गे.मु.मगरी राजस्थान सरकार
			20	निजी	कृषिक	0.0103	गली पुत्री खंगारा कौम त्रिगर सा. देह खातेदार
			19	निजी	कृषिक	0.0020	गली पुत्री खंगारा कौम त्रिगर सा. देह खातेदार
			21	सरकारी	गै.कृषिक	0.3385	गे.मु.नाला राजस्थान सरकार
			2016 / 835	सरकारी	गै.कृषिक	0.0390	गे.मु.नाला राजस्थान सरकार
			1825 / 834	निजी	कृषिक	0.1165	भेराराम पुत्र जीवा, शंकर पुत्र भूरा, अमरी पुत्री भूरा, समीया, वनीया, अमरा, तलसा, पि. धर्मा कौम मेणा सा. देह खातेदार
			1819 / 833	निजी	कृषिक	0.2422	भेराराम पुत्र जीवा, शंकर पुत्र भूरा, अमरी पुत्री भूरा, समीया, वनीया, अमरा, तलसा, पि. धर्मा कौम मेणा सा. देह खातेदार
			1821 / 832	निजी	कृषिक	0.0244	भेराराम पुत्र जीवा, शंकर पुत्र भूरा, अमरी पुत्री भूरा, समीया, वनीया, अमरा, तलसा, पि. धर्मा कौम मेणा सा. देह खातेदार
			1823 / 830	निजी	कृषिक	0.2065	भेराराम पुत्र जीवा, शंकर पुत्र भूरा, अमरी पुत्री भूरा, समीया, वनीया, अमरा, तलसा, पि. धर्मा कौम मेणा सा. देह खातेदार
			1827 / 829	निजी	कृषिक	0.0977	महेन्द्र कुमार मेवाडा पुत्र श्री बाबुलाल कौम मेवाडा सा. सिरोही खातेदार
			2003 / 825	सरकारी	गौचर	0.0496	ग्राम पंचायत आबादी
			1831 / 808	निजी	कृषिक	0.1406	हीराराम पुत्र वदाजी कौम मीणा सा. राजपुरा तह. सिरोही
			807	निजी	कृषिक	0.0379	केसा पुत्र मगा कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			1833 / 806	निजी	कृषिक	0.0680	केसा पुत्र मगा कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार
			798	निजी	कृषिक	0.1012	मोतिया हीरका गोमा पि. मेधा कौम रेबारी सा.देह खातेदार
			1841 / 796	निजी	कृषिक	0.0295	मोहनकुंवर पत्नि स्व. परबतसिंह

							वागसिंह पुत्र परबतसिंह मदनकुवर पत्नि स्व. रामसिंह श्रीपालसिंह महावीरसिंह पि. रामसिंह ना.बा. की वली माता मदनकुंवर रिकूकुवर, संतोष कुंवर पुत्रीया रामसिंह ज्योत्सना कुंवर पत्नि स्व. शैतानसिंह सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह ना.बा. की वली माता ज्योत्सना कुंवर झुला कुंवर पत्नि स्व. अर्जुनसिंह, कुलदीपसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, मीनाकुंवर, सरीयाकुंवर पुत्रीया अर्जुनसिंह ना.बा. की वली माता झुलाकुंवर पत्नि अर्जुनसिंह 1/3 शिवसिंह पि. वरदसिंह 1/3 लहरकुंवर बैवा नाहरसिंह 1/3 कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन शिवसिंह पुत्र विरदसिंह 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरौही के यहां रहन
			2024 / 771	सरकारी	गै.कृषिक	0.0056	गे.मु. नाला राजस्थान सरकार
			2012 / 795	निजी	कृषिक	0.0441	कसनाराम बाबराराम पि. समरथा ओबू पत्नि समरथा कौम रेबारी सा. देह खातेदार
			797	निजी	कृषिक	0.1187	मोहनकुवर पत्नि स्व. परबतसिंह वागसिंह पुत्र परबतसिंह मदनकुवर पत्नि स्व. रामसिंह श्रीपालसिंह महावीरसिंह पि. रामसिंह ना.बा. की वली माता मदनकुंवर रिकूकुवर, संतोष कुंवर पुत्रीया रामसिंह ज्योत्सना कुंवर पत्नि स्व. शैतानसिंह, सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह ना.बा. की वली माता ज्योत्सना कुंवर झुला कुंवर पत्नि स्व. अर्जुनसिंह, कुलदीपसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, मीनाकुंवर, सरीयाकुंवर पुत्रीया अर्जुनसिंह ना.बा. की वली माता झुलाकुंवर पत्नि अर्जुनसिंह 1/3 शिवसिंह पि. वरदसिंह 1/3 लहरकुंवर बैवा नाहरसिंह 1/3 कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन शिवसिंह पुत्र विरदसिंह 1/3 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सिरौही के यहां रहन
			2010 / 770	निजी	गै.मु.आबादी	0.0245	जुहरीया पु. कछुआ कौम कुम्हार सा.देह खातेदार
			1853 / 767	निजी	कृषिक	0.0500	श्रीमती होलीबाई धर्मपत्नि हीरालाल, प्रागाराम जगदीशकुमार पि. हीरालाल, मतराबाई सीता प्यारीबाई पुत्रीया हीरालाल, जुवारमल, छगाराम पि. रूपा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
			1857 / 753	निजी	औद्योगिक	0.0125	गोरधन पुत्र जगाजी कौम मेघवाल सा. देह खातेदार रहन बिल कब्ज सिरौही सहकारी भूमि वि. बैंक लि. सिरौही के पक्ष में रहन
			753 / 1	निजी	आबादी	0.0500	मगना पुत्र जगता कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
			752	सरकारी	गै.कृषिक	0.0379	गे.मु. खड्डा राजस्थान सरकार

				1863/745	निजी	कृषिक	0.0746	मोहन दगो धावला पि. शंकर 1/3 बाबूलाल रूपचंद लक्ष्मणराम रामलाल पि. मूलाजी जाति नागर 1/3 सवाराम मंछाराम मीठालाल मगनलाल पि. जोधा गजराबाई बेवा जोधा 1/3 कुम्हार सा. देह खातेदार
				1875/729	निजी	कृषिक	0.0205	श्रीमती कोकू देवी पत्नि लुम्बाराम जाति मेगवाल 7/36 दुर्गा धावला पि. शंकर 2/9 रूपचंद लक्ष्मणराम रामलाल पि. मूलाजी नागर 3/12 सवाराम मंछाराम मीठालाल मगनलाल पि. जोधा, गजराबाई बेवा जोधा 1/3 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
				1899/728	निजी	कृषिक	0.0750	सदा लीला पि. गोवा कौम रेबारी सा.देह खातेदार
				1883/625	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.3456	ग्राम पंचायत आबादी
				1903/447	सरकारी	गै.मु.स्कूल	0.0498	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नया सानवाडा
				1905/446	सरकारी	गै.मु.स्कूल	0.0224	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नया सानवाडा
				445	सरकारी	गै.मु.वेरा	0.0126	गै.मु. वेरा राजस्थान सरकार
				1915/443	सरकारी	आबादी	0.0506	ग्राम पंचायत आबादी
				1909/442	निजी	कृषिक	0.0147	गोपालदास चेला सीताराम कौम साधु सा. देह खातेदार
				436	निजी	कृषिक	0.0351	नानालाल पुत्र पारेशवर कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1999/435	निजी	कृषिक	0.0177	नानालाल पुत्र पारेशवर कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार
				1913/434	निजी	गै.कृषिक	0.0762	गोपालदास चेला सीताराम कौम साधु सा. देह खातेदार
				1985/432	निजी	कृषिक	0.0135	तेजसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एमजीबी नादिया
				1987/431	निजी	कृषिक	0.0138	तेजसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन एमजीबी नादिया
				424	सरकारी	गै.कृषिक	0.2078	खाल खदर राजस्थान सरकार
				1929/371	निजी	कृषिक	0.0064	गणपतसिंह पुत्र वचनसिंह देवडा कौम राजपूत सा. चवरली हिस्सा 1/3 भूबा, करणसिंह, हमीरसिंह, गोपसिंह पि. धर्मा, नैनसिंह, भूरसिंह पि. किशोरिंग हिस्सा 1/3 कौम रावणा राजपूत सा. देह किशोर कुमार पुत्र राणाजी सुथार सा. मानपुर आबूरोड 1/3 खातेदार
				369	निजी	कृषिक	0.0054	गणपतसिंह पुत्र वचनसिंह देवडा कौम राजपूत सा. चवरली हिस्सा 1/3 भूबा, करणसिंह, हमीरसिंह, गोपसिंह पि. धर्मा, नैनसिंह, भूरसिंह पि. किशोरिंग हिस्सा 1/3 कौम रावणा राजपूत सा. देह किशोर कुमार पुत्र राणाजी सुथार सा. मानपुर आबूरोड 1/3 खातेदार
				1939/364	निजी	गै.कृषिक	0.0027	गोमी बेवा वना कमली पुत्री वना मु. फुली बेवा नाथीया रमेश प्रताप पि.

							नाथीया तारीया पुत्र सदा कौम मेघवंशी सा.देह. खातेदार
			1941 / 363	निजी	कृषिक	0.0041	गोमी बेवा वना कमली पुत्री वना मु. फुली बेवा नाथीया रमेश प्रताप पि. नाथीया तारीया पुत्र सदा कौम मेघवंशी सा.देह. खातेदार
			361	सरकारी	गै.कृषिक	0.0127	गे.मु. मगरी राजस्थान सरकार
			1943 / 360	निजी	कृषिक	0.0164	वागसिंह पुत्र वगतावरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			1945 / 359	निजी	कृषिक	0.0018	वागसिंह पुत्र वगतावरसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			1947 / 358	निजी	कृषिक	0.0146	वागसिंह पुत्र वगतावरसिंह कौम राजपूत सा. देह. खातेदार
			353	सरकारी	गै.कृषिक	0.1265	खाल खदर राजस्थान सरकार
			1888 / 327	सरकारी	गौचर	0.0596	ग्राम पंचायत आबादी
			328	सरकारी	गै.कृषिक	0.0008	गे.मु. नाला राजस्थान सरकार
			2005 / 836	सरकारी	गै.कृषिक	6.4389	पोत परिवहन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भूतल परिवहन मंत्रालय) भारत सरकार
			1115	निजी	आबादी	0.0100	शंकरलाल पुत्र दलाजी कौम लखारा सा.देह खातेदार
			1116	निजी	आबादी	0.0160	वीरेन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह कौम जाट सा. देह खातेदार
			1890 / 322	सरकारी	गौचर	0.0007	ग्राम पंचायत आबादी
			कुल			11.1190	
		(2) वीरवाडा	1231	निजी	कृषिक	0.1610	रतनसिंह, कल्याणसिंह, माधोसिंह पि. विजयसिंह प्रहलादसिंह, नरेन्द्रसिंह पि. ईश्वरसिंह ^{1/2} डूंगरसिंह उम्मेदसिंह पि. ओबसिंह, शांतिकुंवर पत्नि ओबसिंह, सजना मगनी पुत्रीया ओबसिंह, अमरसिंह पि. झाला ^{1/2} कौम राजपूत सा. देह खातेदार
			2052 / 874	निजी	कृषिक	0.0500	मगा, शंकर, बादरींग पि. समा हि. ^{1/2} नैनाराम, मगनलाल पि. देवा मगनलाल, कांतिलाल सतीश भंवर प्रवीण, भरत पि. रामा जरावीबाई पत्नि रामा, गुडिया पुत्री रामा, प्रकाश दिनेश गोपाल पि. जेठा, लीला पत्नि जेठा व वीमा पुत्री जेठा हि ^{0 1/2} कौम राजगर ब्रा. सा. देह खातेदार
			2054 / 875	निजी	कृषिक	0.1391	मगा, शंकर, बादरींग पि. समा हि. ^{1/2} नैनाराम, मगनलाल पि. देवा मगनलाल, कांतिलाल सतीश भंवर प्रवीण, भरत पि. रामा जरावीबाई पत्नि रामा, गुडिया पुत्री रामा, प्रकाश दिनेश गोपाल पि. जेठा, लीला पत्नि जेठा व वीमा पुत्री जेठा हि ^{0 1/2} कौम राजगर ब्रा. सा. देह खातेदार
			2067 / 878	निजी	कृषिक	0.0840	नैनाराम, मगनलाल पि. देवा कांतिलाल, सतीश, भंवर, प्रवीण, भरत पि. रामा जरावीबाई पत्नि रामा, गुडिया पुत्री रामा, लीला बेवा जेठा प्रकाश, दिनेश, गोपाल पि. जेठा कौम राजगर ब्राह्मण सा. देह खातेदार

				2077 / 855	निजी	कृषिक	0.0230	लहरी बेवा वेलाराम, लक्ष्मी पत्नि गोपाराम, फुलाराम, भगाराम पि. उमा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
				844	निजी	गै.मु.वेरा	0.0202	लीलाराम, शंकर, मीठाराम पि. मूला संतोकी बेवा मूला बदकी देवी बेवा मोहन, ईश्वर, प्रकाश, पुनाराम, भरतकुमार, सुरेश पि. मोहन ना.बा. कुदरती वली माता बदकीदेवी बेवा मोहन, लक्ष्मी बेवा सांकला, वागाराम, तलसाराम, रमेशकुमार, पि. सांकला, धरमा वल्द जेठा भूबा वल्द धन्ना जाला वल्द राजा, पुखराज, रमेश पि. वगता, पंकू पुत्री वगता, शान्ति पत्नि वगता, खेताराम, भेराराम, कालूराम पि. शंकर, हिरी बाई पत्नि शंकर, नारायणलाल, ओटाराम पि. केसा, सूजी पुत्री केसा, कौम माली सा.देह खातेदार
				2123 / 717	निजी	कृषिक	0.0080	ओटाराम शंकरलाल लीलाराम रावाराम पि. रता, वागाराम तुलसीराम पि. छोगा, हीरीदेवी पत्नि छोगा, कमला सीता जसोदा दरिया पुत्रीया छोगा, थाना, खीमा, ताराराम पि. नाथा कौम माली सा. देह खातेदार
				2157 / 560	निजी	कृषिक	0.0055	सणगा बेवा मगा रमेश भंवर पि. मगा कौम रावल सा. देह खातेदार
				2001 / 722	निजी	गै.मु.आबादी	0.0160	ग्राम पंचायत वीरवाडा
				2035 / 1223	निजी	कृषिक	0.0420	प्रताप, छोगा, शंकर पि. दाना कौम कुम्हार सा. देह खातेदार
				2047 / 1220	निजी	कृषिक	0.0960	रामसिंह वल्द मूलसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
				2215 / 1221	सरकारी	गै.कृषिक	0.0090	गै.मु. रास्ता राजस्थान सरकार
				1992 / 868	सरकारी	गै.कृषिक	0.0240	गै.मु. नाला राजस्थान सरकार
				1990 / 867	सरकारी	कृषिक	0.1290	दरगा पुत्र मगना कौम ढोली सा.देह गैर खातेदार
				2050 / 869	निजी	कृषिक	0.0182	मगा, शंकर, बादरींग पि. समा हि. 1/2 नैनाराम, मगनलाल पि. देवा मगनलाल, कांतिलाल सतीश भंवर प्रवीण, भरत पि. रामा जरावीबाई पत्नि रामा, गुडिया पुत्री रामा, प्रकाश दिनेश गोपाल पि. जेठा, लीला पत्नि जेठा व वीमा पुत्री जेठा हि0 1/2 कौम राजगर ब्रा. सा. देह खातेदार
				2073 / 857	निजी	कृषिक	0.0900	संतोष बेवा धना रावाराम किशोर कुमार पि. धना सविता बेवा रगीया किशोर पुत्र रगीया, रणजीत कुमार पुत्र जेतीया, लक्ष्मी पत्नि जेतीया, प्रवीणा सुरेखा पुत्रीया जेतीया कौम सूआर सा. देह खातेदार
				2081 / 1939	निजी	कृषिक	0.0379	हिम्मताराम पुत्र नाथा कौम कुम्हार सा.देहखातेदार
				1236	निजी	कृषिक	0.0255	नर्बदादेवी पत्नि सीताराम कौम माली सा. देह खातेदार
				767	सरकारी	गै.कृषिक	0.0126	राजस्थान सरकार (प्याऊ)

				कुल	0.9910	
	(3) झाडोली	2256	निजी	कृषिक	0.2150	मुपेन्द्र कुमार पुत्र नाथुभाई, जाति पुरोहित सा. देह खातेदार
		2055 / 3445	निजी	कृषिक	0.1896	श्रीमती धरमीबाई पत्नि थानाराम, समरथलाल कान्तिनलाल पि. थानाराम नर्बदा बसन्ती मगनी पुत्रीया थानाराम कौम पुरोहित सा. देह खातेदार
		2055 / 3443	निजी	कृषिक	0.3161	बादुराम पुत्र किशना, अरविन्द, सुभाष पिता चुन्नीलाल कैलाश देवी पुत्री चुन्नीलाल, जशोदा देवी धर्मपत्नि चुन्नीलाल कौम पुरोहित सा. देह खातेदार
		2058 / 1	निजी	गै.मु.आबादी	0.1030	मंजुलाबेन धर्मपत्नि कुन्दनमल जाति जैन सा पिण्डवाडा खातेदार
			कुल		0.8237	
	(4) झाकर	918 / 592	निजी	कृषिक	0.0833	अर्जुनदान पुत्र मुरारदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		593	निजी	कृषिक	0.0374	अर्जुनदान पुत्र मुरारदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		597 / 3	निजी	कृषिक	0.0190	अर्जुनदान पुत्र मुरारदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		597 / 1	निजी	कृषिक	0.0328	श्रीमती सुगनकुंवर धर्मपत्नि अर्जुनदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		597 / 2	निजी	कृषिक	0.0381	श्रीमती मुन्नाकुंवर धर्मपत्नि प्रवीणदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		531	निजी	कृषिक	0.0422	सुखदेवसिंह पुत्र चतरदान, मुन्नाकंवर पत्नि चतरदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		1012 / 530	निजी	कृषिक	0.0752	सुखदेवसिंह पुत्र चतरदान, मुन्नाकंवर पत्नि चतरदान कौम चारण सा. देह खातेदार
		471	सरकारी	गै.कृषिक	0.1521	गै.मु.रास्ता राजस्थान सरकार
		525	निजी	कृषिक	0.0658	केसा वीरा पि. वजा ठूटी, दीवी पुत्री वजा देवा वल्द सोना बदा, भीमा, वीसा, चुन्नीलाल पि. खीमा लूगी बेवा खीमा वदाराम, पाताराम शंकरलाल भेराराम पि. लखमा, पेपीदेवी पत्नि लखमाजी, मणी पोनी पुत्री लखमा सवाराम सुजाराम पि. लसाराम, समीदेवी पत्नि लसाराम, पुष्पा चम्पा पुत्री लसाराम हकमाराम वल्द प्रेमा हि. 3/4 मेघवंशी वदाराम पाताराम शंकरलाल भेराराम पि. लखमा, पेपीदेवी पत्नि लखमाजी, मणी पोनी पुत्री लखमा, सवाराम सुजाराम पि. लसाराम, समीदेवी पत्नि लसाराम, पुष्पा चम्पा पुत्री लसाराम हकमा वल्द प्रेमा देवा वल्द सोना केसा, वीरा पिता वजा, ठूटी, दीवी पुत्री वजा व लुंगी बेवा खीमा कौम मेघवाल 1/16 हिम्मतदान वल्द वेरीसालदान, हुआबाई बेवा वेरीसालदान, जुजारदान वल्द भीमदान उम्मेदसिंह, महेन्द्रसिंह पि. सुरजदान

							1/16 प्रभूसिंह वल्द सुजानदान 1/16 सायरबाई बेवा रतनदान व भंवरदान वल्द रतनदान व शिवदान, बालुदान पि. बदनदान 1/32 रुधनाथदान वल्द देवीदान हि. 1/32 कौम चारण सा. देह खातेदार रहन— भूमि विकास बैंक शाखा पिण्डवाडा केसा वीरा पि. वजा, दिवी, टूटी पुत्री वजा मगी पत्नि वजा का हिस्सा रहन
		1007 / 449	निजी	कृषिक	0.0398	हिंगलाजदान पुत्र मोतीदान कौम चारण सा. देह खातेदार	
		461	निजी	कृषिक	0.0315	काना वल्द माना हि. 1/2 पुनमा परबा पि. तेजा हि. 1/2 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार	
		कुल			0.6172		
(5) पिण्डवाडा	2539 / 2	निजी	कृषिक	0.0411	श्रीमती मीठीबाई पत्नि स्व. मगनलाल जाति रावल सा. देह खातेदार		
	2539 / 4	निजी	कृषिक	0.0411	मगनलाल पुत्र फुसाजी जाति माली सा. कोजरा खातेदार		
	2539 / 1	निजी	कृषिक	0.0411	जुहारमल, जगदीश, कन्हैयालाल, अशोक कुमार पिता मगा 1/5, अमृत, भंवर पिता छोगा, अंबा, टीना, इन्दु पुत्री भरत, शारदा पत्नि भरत, प्रेमा, लल्लू पिता पुनमा कौम रावल ब्राह्मण सा. देह हंसाराम वल्द वेलाजी कौम चौधरी सा. नाडोल रोड कोटडी तह. देसूरी, मांगीलाल वल्द देवाजी कौम चौधरी सा. सिरोही रोड 4/5 खातेदार		
	2539 / 6	निजी	कृषिक	0.1644	जुहारमल, जगदीश, कन्हैयालाल, अशोक कुमार पिता मगा 1/5, अमृत, भंवर पिता छोगा, अंबा, टीना, इन्दु पुत्री भरत, शारदा पत्नि भरत, प्रेमा, लल्लू पिता पुनमा कौम रावल ब्राह्मण सा. देह हंसाराम वल्द वेलाजी कौम चौधरी सा. नाडोल रोड कोटडी तह. देसूरी, मांगीलाल वल्द देवाजी कौम चौधरी सा. सिरोही रोड 4/5 खातेदार		
	2525	निजी	कृषिक	0.0190	हिरेंद्रसिंह भवानीसिंह पि. छतरसिंह जाति राजपूत सा. अजारी खातेदार		
	4046 / 2525	निजी	कृषिक	0.0177	हिरेंद्रसिंह भवानीसिंह पि. छतरसिंह जाति राजपूत सा. अजारी खातेदार		
	4047 / 2525	निजी	कृषिक	0.0177	हिरेंद्रसिंह भवानीसिंह पि. छतरसिंह जाति राजपूत सा. अजारी खातेदार		
	4044 / 2525	निजी	कृषिक	0.0190	भगवतीकुंवर धर्मपत्नि छतरसिंह जाति राजपूत सा. अजारी खातेदार		
	4042 / 2525	निजी	कृषिक	0.0171	जुहारमल जगदीश कन्हैयालाल अशोककुमार पि. मगा जाति रावल ब्राह्मण सा. देह खातेदार		
	4045 / 2525	निजी	कृषिक	0.0190	चन्द्रवीरसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत नि. मोहरकलां तहसील रायपुर जिला पाली हाल नांदिया तह. पिण्डवाडा खातेदार		
	4043 / 2525	निजी	कृषिक	0.0171	कमलेश कुमार पुत्र मगनलाल जाति माली सा. कोजरा खातेदार		

				2524 / 1	निजी	कृषिक	0.0177	तुलसीराम पुत्र भानाजी भानाराम पुत्र गमनाजी कौम प्रजापत सा. अजारी खातेदार
				2524 / 2	निजी	कृषिक	0.0196	वालाराम पुत्र रामाजी रामाराम पुत्र भीखाजी कौम प्रजापत सा. अजारी खातेदार
				2322 / 1	निजी	आबादी 0.1012 वाणिज्यिक 0.1011	0.2023	जयराम पुत्र चतुर्भूजजी श्रीमती कमलाबाई पत्नि श्री जयराम श्री खीमाशंकर पुत्र चतुर्भूज जाति पुरोहित सा. डूंगरी खातेदार
				2322 / 2	निजी	आबादी 0.0253 वाणिज्यिक 0.1012	0.1265	कान्तीलाल पुत्र चतुर्भूजजी श्रीमती लीला बहन पत्नि श्री खीमाशंकर श्रीमती लीलादेवी पत्नि कान्तीलाल जाति पुरोहित सा. डूंगरी खातेदार
				2348 / 2	निजी	कृषिक	0.0710	बनवारीलाल वल्द नाथूलाल कौम अग्रवाल सा. देह खातेदार
				5317 / 2313	सरकारी	गै.कृषिक	0.0103	मगरा राजस्थान सरकार
				2314	निजी	कृषिक	0.0761	नरेश महेन्द्र पि. गोपालराम, रेखा उर्फ हेमलता पुत्री गोपालराम, कन्या ध.प. गोपालराम 1/4 कौम लुहार, नेनाराम पुत्र रगाजी 3/4 जाति मीणा सा. देह (सिरोही रोड) खातेदार
				5313 / 2306	सरकारी	गै.कृषिक	0.0578	गे.मु. रास्ता राजस्थान सरकार
				2258	निजी	कृषिक	0.0272	मोहनलाल मंछाराम अचलाराम हरजीराम हरिराम रमेशलाल पि. पूनाराम मगाराम मनाराम नोपाराम पि. धीरा, कौम मेणा सा. देह खातेदार
				कुल			1.0228	
				कुल योग			14.5737	

[फा. सं. भाराप्रा/बीओटी-II/11012/01/2007/एलए]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3498(E).— Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1088 (E) dated 01.05.2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.14 in the stretch of land from km. 228.980 to km. 244.110 (Sirohi Section) in District Sirohi, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Rajasthan Patrika" & "Dainik Bhaskar" dated the 21.06.2013, under sub-section 3 of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 228.980 to km. 244.110 (Sirohi Section) of the National Highway No. 14 in the State of Rajasthan

Serial Number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Sirohi	Pindwara	(1)New Sanwavada	1877/881	Govt	Abadi	0.1381	Gram Panchayat, Abadi
				1843/859	Private	Agricultural	0.0100	Baburam s/o Bhanaram, kaum Grasia, R/o. Basantgarh
				1845/860	Private	Agricultural	0.0252	Bhura S/o. Bhuda kaum Mena, Sa.Deh.Khatedar
				1847/861	Private	Agricultural	0.0472	Varju bewa Babra Mohandas Kevaldas Gopaladas S/o. Babra kaum Guru Sa. Deh. Khatedar
				1849/862	Private	Agricultural	0.0669	Motia Heerka Goma S/o..Megha Kaum Rebari Sa.Deh.Khatedar
				863/2	Private	Agricultural	0.0291	Devi W/o. Genaram Kaum Meghwal Sa.Dingar
				877	Govt	Non Agricultural	0.0279	Ge.Mu.Magri Rajasthan Sarkar
				1839/878	Private	Agricultural	0.0565	Smt.Lalkuvar Dharm Patni Mohabbatsingh, Moolsingh, Bhanwarsingh, Udaisingh S/o.Mohabbatsingh, Havankunwar W/o. Ganpatsingh, Lakshmarsingh S/o.Achalsingh, Sayarkunwar W/o.Daulatsingh, Jorsingh, Rajusingh S/o.Daulatsingh, Kanchankunwar, Chelukanwar D/o. Daulatsingh, Balwant Singh S/o.Achalsingh, Kaum Rajput Sa.Deh.Khatedaar B.Hi.B.raham Balwantsingh S/o. Achalsingh ka hissa Sahakari Bhoomi vikaar Bank Ltd., Sirohi ke yaha rahan.
				879	Private	Agricultural	0.0735	Mu.Bali W/o. Bhuba Galiya Sankla Heera Kasna Sarupa Nareega S/o Bhuba, kaum rabari, sa. Dehakhatedar
				880	Private	Agricultural	0.0755	Shrimati Holibaai Dharmpatni Heeralal, Pragaram, Jagdishkumar S/o.Heeralal, Maatrabaai, Sita, Pyaribaai daughters of Heeralal, Juwarmal, Chagaram S/o.Rupa, Kaum Kumhar Sa.Deh.Khatedaar
				1879/1020	Govt	Residential	0.0065	Gram Panchayat, Abadi
				1879/1025	Private	Agricultural	0.0019	Neti S/o. Dhula 1/2 Jaju bewa Vanveera Rengaram S/o.Vanveera, Puni Hiri, Janu D/o.Vanveera, Naviya S/o.Panna, Tipu bewa Poma, Heera Kaliya S/o.Poma 1/2 Kaum Rebari Sa.Deh. Khatedar
				1880/1085	Govt	Residential	0.1123	Gram Panchayat, Abadi
				1086	Govt	Residential	0.0284	Gram Panchayat, Abadi
				1087	Private	Agricultural	0.0036	Arjunpuri S/o.Madhupuri Mu.Hanja Bewa Madhupuri, Sharda D/o.Madhupuri, Umedpur S/o.Sompuri, Indira D/o.Chaganpuri, Na.Ba. Kaum Swami, Sa.Deh.Khatedar
				1098	Private	Agricultural	0.0047	Mula S/o.Dana, Kaum Jangid Brahmin, Sa.Deh, Khatedar
				1884/1099	Govt	Residential	0.0353	Gram Panchayat, Abadi
				1901/1109	Private	Residential	0.0136	Mulsingh, Ishwarsingh, Bheem Singh S/o.Kesharsingh, Kaum Rajput, Sa.Deh.Khatedar
				1110	Govt	Residential	0.0194	Gram Panchayat, Abadi
				1113	Private	Agricultural	0.0184	Mancharam S/o.Choga Shankar, Pukhraj S/o.Dala Nenaram, Meetharam, Mukesh Kumar S/o Visha, Sumti Bewa Visha, Kom Lakhara, Sa. Deh. Khatedar
				1457	Govt	Non Agricultural	0.0588	Gairmumkin Nadi, Rajasthan Sarkar
				1949/1472	Private	Agricultural	0.0176	Govindra Bhaai S/o.Meethalal Patel, Narendrakumar S/o.Manilala Patel, Mukesh Kumar S/o.Ramanlal, Jati Patel, Ni.Ghaskor Gate Vadnagar, Patel Girishkumar S/o. Chimanlal, Jaati Patel, Ni.Ramji Mandir ke paas, Sabalpur , Tehsil Vadnagar, Jila Mehasana, Khatedaar
				1951/1528	Private	Agricultural	0.0015	Leelaram Hansaram S/o. Bhoma, Hanja, Rekha D/o. Bhoma Saviya Talsiya, S/o. Neta 1/3, Shrimati Lasi W/o. Sawaram 1/6, Smt.Pankudevi W/o.Somaram 1/6, Suki

								W/o.Devaram, Jagdish S/o. Devaram, Pooja D/o. Devaram Na.Ba.ki Vali Mata Suki W/o.Devaram, Shankarram S/o.Dana Anu Bewa Pomiya, Manchi D/o.Pomiya Mu.Anu.Bewa, Pomiya, Kaniya S/o. Punama 1/3, Dali W/o. Sakaram, Nema S/o. Sakaram, Hanja, Rakma, Pabu D/o.Sakaram, Nema, Pabu Naba. ki wali. mata Dali W/o. Sakaram, Kaum Meghvanshi Sa.Deh.Khatedaar, Rahan Dana Pomiya Kaniya Sakiya S/o.Punama Hi.1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi. ke yaha rahan.
				1529	Govt	Non Agricultural	0.0133	Gairmumkin Nadi, Rajasthan Sarkar
				1955/1532	Private	Non Agricultural	0.0146	Leelaram Hansaram S/o. Bhoma Hanja, Rekha D/o. Bhma, Saviya Talsiya, S/o.Neta 1/3, Shrimati Lasi W/o. Sawaram 1/6, Smt.Pankudevi W/o.Somaram 1/6, Suki W/o.Devaram, Jagdish S/o.Devaram, Pooja D/o.Devaram, Na.Ba.Ki wali mata Suki W/o.Devaram, Shankarram S/o.Dana, Anu Bewa Pomiya, Manchi D/o.Pomiya, Mu.Anu.Bewa Pomiya Kaniya S/o. Punama 1/3, Dali W/o. Sakaram, Nema S/o.Sakaram, Hanja Rakma, Pabu D/o.Sakaram, Nema, Pabu Na.Ba.ki wali mata Dali W/o. Sakaram, Kaum Meghvanshi Sa.Deh. Khatedaar, Rahan Dana Pomiya Kaniya Sakiya S/o.Punama Hi.1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi. ke yaha rahan.
				1957/1537	Private	Agricultural	0.0295	Leelaram Hansaram S/o. Bhoma, Hanja, Rekha D/o. Bhoma Saviya Talsiya, S/o. Neta 1/3, Shrimati Lasi W/o. Sawaram 1/6, Smt.Pankudevi W/o.Somaram 1/6, Suki W/o.Devaram, Jagdish S/o.Devaram, Pooja D/o. Devaram, Na.Ba. ki Vali Mata Suki W/o.Devaram, Shankarram S/o.Dana Anu Bewa Pomiya, Manchi D/o.Pomiya Mu.Anu.Bewa, Pomiya, Kaniya S/o. Punama 1/3, Dali W/o. Sakaram, Nema S/o. Sakaram, Hanja, Rakma, Pabu D/o.Sakaram, Nema, Pabu Naba. ki wali. mata Dali W/.Sakaram, Kaum Meghvanshi Sa.Deh. Khatedaar, Rahan Dana Pomiya Kaniya Sakiya S/o.Punama Hi.1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi. ke yaha rahan.
				1959/1538	Private	Agricultural	0.0554	Leelaram Hansaram S/o. Bhoma, Hanja, Rekha D/o. Bhoma Saviya Talsiya, S/o. Neta 1/3, Shrimati Lasi W/o. Sawaram 1/6, Smt.Pankudevi W/o.Somaram 1/6, Suki W/o.Devaram, Jagdish S/o.Devaram, Pooja D/o.Devaram, Na.Ba.ki Vali Mata Suki W/o.Devaram, Shankarram S/o.Dana Anu Bewa Pomiya, Manchi D/o.Pomiya Mu.Anu.Bewa, Pomiya, Kaniya S/o. Punama 1/3, Dali W/o. Sakaram, Nema S/o. Sakaram, Hanja, Rakma, Pabu D/o.Sakaram, Nema, Pabu Naba. ki wali. mata Dali W/.Sakaram, Kaum Meghvanshi Sa.Deh. Khatedaar, Rahan Dana Pomiya Kaniya Sakiya S/o.Punama Hi.1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi. ke yaha rahan.
				1553	Private	Agricultural	0.0773	Chogaram, Bheraram, Ladaram S/o.Ana, kaum Maali Sa.Veerwada, Khatedaar
				1969/1554	Private	Agricultural	0.0729	Chogaram, Bheraram, Ladaram S/o.Ana kaum Maali Sa.Veerwada, Khatedaar
				1555	Private	Non Agricultural	0.0164	Chogaram, Bheraram, Ladaram S/o.Ana, kaum Maali 1/2, Vardaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o.Vela Vaja S/o.Dhana, Kaum ghanchi. 1/2. Sa.Veerwada, Khatedar

			1563	Private	Non Agricultural	0.0251	Vardaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o. Vela, Vaja S/o. Dhana, kaum Ghanchi, Sa.Veerwada, Khatedar
			1991/1564	Private	Agricultural	0.0222	Vardaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o. Vela, Vaja S/o.Dhna kaum Ghanchi Sa.Veerwada, Khatedar
			1971/1565	Private	Agricultural	0.0759	Chogaram, Bheraram, Ladaram S/o.Ana kaum Maali Sa.Veerwada, Khatedaar
			1993/1566	Private	Commercial	0.0379	Verdaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o. Vela, Vaja S/o.Dhna kaum Ghanchi Sa.Veerwada, Khatedar
			1995/1567	Private	Agricultural	0.0570	Vardaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o. Vela, Vaja S/o.Dhna kaum Ghanchi Sa.Veerwada, Khatedar
			1997/1569	Private	Agricultural	0.0419	Vardaram, Ramlal, Devaram, Gopal S/o. Vela, Vaja S/o.Dhna kaum Ghanchi Sa.Veerwada, Khatedar
			1570	Govt	Non Agricultural	0.0398	Gairmumkin Magri, Rajasthan Sarkar
			1571/1	Private	Industrial	0.0238	Pramilakanwar W/o.Jabbarsingh jaati Rajpurohit R/o.Morkha Khatedar
			1572	Private	Petrol Pump	0.0255	Jabarsingh, Satpalsingh S/o.Mukansingh urf Maganlal, kaum Rajpurohit , Sa.Morkha, Tehsil Desuri, Jila Pali, Khatedar
			1981/1573	Private	Petrol Pump	0.0228	Jabarsingh, Satpalsingh S/o.Mukansingh urf Maganlal, kaum Rajpurohit , Sa.Morkha, Tehsil Desuri, Jila Pali, Khatedar
			1575	Govt	Non Agricultural	0.0021	Gairmumkin Magri, Rajasthan Sarkar
			20	Private	Agricultural	0.0103	Gali d/o.Khangara, Kaum Trigdar, Sa.Deh.Khatedar
			19	Private	Agricultural	0.0020	Gali d/o.Khangara, Kaum Trigdar, Sa.Deh.Khatedar
			21	Govt	Non Agricultural	0.3385	Gairmumkin Nallah, Rajasthan Sarkar
			2016/835	Govt	Non Agricultural	0.0390	Gairmumkin Nallah, Rajasthan Sarkar
			1825/834	Private	Agricultural	0.1165	Bheraram S/o.Jeeva, Shankar S/o.Bhura, Amri D/o.Bhura Samiya, Vaniya, Amra, Talsa S/o.Dharma, kaum Mena Sa.Deh.Khatedar
			1819/833	Private	Agricultural	0.2422	Bheraram S/o.Jeeva, Shankar S/o.Bhura, Amri D/o.Bhura Samiya, Vaniya, Amra, Talsa S/o.Dharma, kaum Mena Sa.Deh.Khatedar
			1821/832	Private	Agricultural	0.0244	Bheraram S/o.Jeeva, Shankar S/o.Bhura, Amri D/o.Bhura Samiya, Vaniya, Amra, Talsa S/o.Dharma, kaum Mena Sa.Deh.Khatedar
			1823/830	Private	Agricultural	0.2065	Bheraram S/o.Jeeva, Shankar S/o.Bhura, Amri D/o.Bhura Samiya, Vaniya, Amra, Talsa S/o.Dharma, kaum Mena Sa.Deh.Khatedar
			1827/829	Private	Agricultural	0.0977	Mahendra Kumar mewada S/o.Sh. Babulal, Kaum Mevwada, Sa.Sirohi, Khatedar
			2003/825	Govt	Gochar	0.0496	Gram Panchayat, Abadi
			1831/808	Private	Agricultural	0.1406	Heeraram S/o.Vadaji, Kaum Meena, Sa.Rajpura, The.Sirohi
			807	Private	Agricultural	0.0379	Kesa S/o.Maga, Kaum Megvanshi, Sa.Deh Khatedar
			1833/806	Private	Agricultural	0.0680	Kesa S/o.Maga, Kaum Megvanshi, Sa.Deh Khatedar
			798	Private	Agricultural	0.1012	Motiya, Hirka, Goma S/o.Megha, Kaum Rebari, Sa.Deh, Khatedar
			1841/796	Private	Agricultural	0.0295	Mohankunwar W/o.Late.Parbatsingh, Vagsingh S/o.Parbatsingh, Madankunwar, W/o.Late.Ramsingh, Shreepalsingh, Mahaveersingh S/o.Ramsingh Na.Ba. Ki vali mata Madankanwar, Rinkukanwar, Santosh Kunwar D/o.Ramsingh, Jyotsana Kunwar, W/o. late Sh.Shaitansingh, Sumersingh S/o.Shaitan Singh. N.B. ki vali

							mata Jyotsana Kunwar, Jhula kunwar W/o.late Arjunsingh, Kuldeepsingh S/o.Arjunsingh, Meenakunwar, Saryakunwar D/o.Arjunsingh Na.Ba.ki vali mata Jhulakunwar W/o.Arjunsingh 1/3 Shivsingh S/o.Vardsingh 1/3 Laharkunwar bewa Narsingh 1/3, kaum Rajput, Sa.De. Khatedar Rahan Shivsingh S/o.Viradsingh 1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi ke yaha rahan
			2024/771	Govt	Non Agricultural	0.0056	Gairmumkin Nallah, Rajasthan Sarkar
			2012/795	Private	Agricultural	0.0441	Kasnaram Babraram S/o.Samratha, Obu W/o.Samratha, Kaum Raibari, Sa.De.Khatedar
			797	Private	Agricultural	0.1187	Mohankunwar S/o.Late Parbatsingh, Vagsingh S/o.Parbatsingh, Madankunwar, W/o.Late.Ramsingh, Shreepalsingh, Mahaveersingh S/o.Ramsingh Na.Ba. Ki vali mata Madankanwar, Rinkukanwar, Santosh Kunwar D/o.Ramsingh, Jyotsana Kunwar, W/o. late Sh.Shaitansingh, Sumersingh S/o.Shaitan Singh. N.B. ki vali mata Jyotsana Kunwar, Jhula kunwar W/o.late Arjunsingh, Kuldeepsingh S/o.Arjunsingh, Meenakunwar, Saryakunwar D/o.Arjunsingh Na.Ba.ki vali mata Jhulakunwar W/o.Arjunsingh 1/3 Shivsingh S/o.Vardsingh 1/3 Laharkunwar bewa Narsingh 1/3, kaum Rajput, Sa.De. Khatedar Rahan Shivsingh S/o.Viradsingh 1/3 Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd.Sirohi ke yaha rahan
			2010/770	Private	Residential	0.0245	Juhariya S/o.Kachua, Kaum Kumhar Sa.De.Khatedar
			1853/767	Private	Agricultural	0.0500	Smt. Holibai W/o.Heeralal, Pragaram, jagdishkumar S/o.Heeralal, matrabaai, Seetaraam, Pyaribaai, D/o.Heeralal, Juvarmal, Chagaram S/o.Rupa, kaum Kumhar, Sa.De.Khatedaar
			1857/753	Private	Industrial	0.0125	Gordhan S/o.Jagaji, kaum Meghwal, Sa.De.Khatedar, Rahan Bill kabja Sirohi Sahakari Bhumi Vikaas Bank Ltd, Sirohi ke paksh me rahan
			753/1	Private	Residential	0.0500	Magna S/o. Jagta, kaum Kumhar, Sa.De.Khatedar
			752	Govt	Non Agricultural	0.0379	Gairmumkin khadda, Rajasthan Sarkar
			1863/745	Private	Agricultural	0.0746	Mohan, Darga, Dhavla S/o.Shankar 1/3, Babulal, Roopchand, Lakshmanram, Ramlal S/o.Mulaji, Jaati Nagar 1/3, Savaram, Mancharam, Meethalal, Maganlal S/o.Jodha, Gajrabai Bewa Jodha 1/3, kumhar sa.deh.khatedar
			1875/729	Private	Agricultural	0.0205	Smt.Koku Devi W/o.Lumbaram, Jati Megwal 7/36 Durga Dhavla S/o. Shankar 2/9, Rupchand, Lakshmanram, Ramlal S/o.Mulaji Nagar 3/12, Savaram Mancharam Meethalal Maganlal S/o.Jodha, Gajraibai bewa Jodha 1/3, Kaum Kumhar Sa.De. Khatedar
			1889/728	Private	Agricultural	0.0750	Sada Leela S/o.Gova Kaum Rebari Sa.De. Khatedar
			1883/625	Govt	Residential	0.3456	Gram Panchayat, Abadi
			1903/447	Govt	School	0.0498	Rajkiya Madhyamik Vidhyala, Naya Sanwada
			1905/446	Govt	School	0.0224	Rajkiya Madhyamik Vidhyala, Naya Sanwada
			445	Govt	Open Well	0.0126	Gair Mumkin Vera Rajasthan Sarkar
			1915/443	Govt	Abadi	0.0506	Gram Panchayat, Abadi
			1909/442	Private	Agricultural	0.0147	Gopaldas chela Sitaram, Kaum Sadhu Sa.De.Khatedar
			436	Private	Agricultural	0.0351	Nanalal S/o.Pareshwar kaum Brahmin

							Sa.DeH, Khatedar
			1999/435	Private	Agricultural	0.0177	Nanalal S/o.Pareshwar kaum Brahmin Sa.DeH, Khatedar
			1913/434	Private	Non Agricultural	0.0762	Gopaldas chela Sitaram, Kaum Sadhu Sa.DeH.Khatedar
			1985/432	Private	Agricultural	0.0135	Tejsingh S/o.Devisingh, kaum Rajpoot, Sa.DeH Khatedar, rahan MGB Nadiya
			1987/431	Private	Agricultural	0.0138	Tejsingh S/o.Devisingh, kaum Rajpoot, Sa.DeH Khatedar, rahan MGB Nadiya
			424	Govt	Non Agricultural	0.2078	Khal khadar Rajasthan Sarkar
			1929/371	Private	Agricultural	0.0064	Ganpatsingh S/o.Bachansingh Devda, kaum Rajpoot, Sa. Chavrlhi hissa 1/3, Bhuba.Karansingh, Hamirsingh, Gopsingh S/o.Dharma, Nainsingh, Bhursingh S/o.Kishoringh, hissa 1/3 kaum Ravna Rajpoot, Sa.DeH Kishor Kumar S/o.Ranaji Suthar Sa.Manpur Aburod 1/3 Khatedar
			369	Private	Agricultural	0.0054	Ganpatsingh S/o.Bachansingh Devda, kaum Rajpoot, Sa. Chavrlhi hissa 1/3, Bhuba.Karansingh, Hamirsingh, Gopsingh S/o.Dharma, Nainsingh, Bhursingh S/o.Kishoringh, hissa 1/3 kaum Ravna Rajpoot, Sa.DeH Kishor Kumar S/o.Ranaji Suthar Sa.Manpur Aburod 1/3 Khatedar
			1939/364	Private	Non Agricultural	0.0027	Gomi Bewa Vana, Kamli D/o.Vana Mu.Phuli Bewa Nathiya Ramesh Pratap S/o.Nathiya Tariya S/o.Sada, kaum Meghvanshi Sa.DeH.Khatedar
			1941/363	Private	Agricultural	0.0041	Gomi Bewa Vana, Kamli D/o.Vana Mu.Phuli Bewa Nathiya Ramesh Pratap S/o.Nathiya Tariya S/o.Sada, kaum Meghvanshi Sa.DeH.Khatedar
			361	Govt	Non Agricultural	0.0127	Gairmumkin Magri, Rajsthan Sarkar
			1943/360	Private	Agricultural	0.0164	Vagsingh S/o.Vagtavarsingh, Kaum Rajpoot, Sa.DeH.Khatedar
			1945/359	Private	Agricultural	0.0018	Vagsingh S/o.Vagtavarsingh, Kaum Rajpoot, Sa.DeH.Khatedar
			1947/358	Private	Agricultural	0.0146	Vagsingh S/o.Vagtavarsingh, Kaum Rajpoot, Sa.DeH.Khatedar
			353	Govt	Non Agricultural	0.1265	Khal khadar Rajasthan Sarkar
			1888/327	Govt	Gochar	0.0596	Gram Panchayat, Abadi
			328	Govt	Non Agricultural	0.0008	Gairmumkin Nallah, Rajasthan Sarkar
			2005/836	Govt	Non Agricultural	6.4389	Ministry of Shipping Road Transport & Highways (Ministry of Surface Transport) Govt.of India
			1115	Private	Residential	0.0100	Shankarlal S/o.Dalaji Kaum Lakhara Sa.DeH, Khatedar
			1116	Private	Residential	0.0160	Virendra Singh S/o.Balbeer Singh, kaum Jat, Sa.DeH.Khatedar
			1890/322	Govt	Abadi	0.0007	Gram Panchayat, Abadi
			Total			11.1190	
	(2)	Virwara	1231	Private	Agricultural	0.1610	Ratansingh, Kalyansingh, Mathosingh S/o Vijaysingh, Prahaladsingh, Narendrasingh S/o.Ishwarsingh 1/2 Dungersingh, Umedsingh S/o.Obsingh, Shantikunwar W/o.Obsingh, Sajna Magni D/o.Obsingh, Amarsingh S/o.Jhala 1/2 Kaum Rajpoot Sa.DeH Khatedar
			2052/874	Private	Agricultural	0.0500	Maga, Shankar, Badring S/o.Sama hi. 1/2 Nainaram, Maganlal S/o.Deva Maganlal, Kantilal, Satish, Bhanwar, Praveen, Bharat S/o.Rama , Jaravibai W/o.Rama, Gudiya D/o.Rama, Praksh, Dinesh, Gopal S/o.Jetha, Leela W/o.Jetha and Veema D/o.Jetha, hi. 1/2 Kaum Rajgar, Bra.Sa.DeH. Khatedar
			2054/875	Private	Agricultural	0.1391	Maga, Shankar, Badring S/o.Sama hi. 1/2 Nainaram, Maganlal S/o.Deva Maganlal, Kantilal, Satish, Bhanwar, Praveen, Bharat

							S/o.Rama , Jaravibai W/o.Rama, Gudiya D/o.Rama, Praksh, Dinesh, Gopal S/o.Jetha, Leela W/o.Jetha and Veema D/o.Jetha, hi. 1/2 Kaum Rajgar, Bra.Sa.De. Khatedar
			2067/878	Private	Agricultural	0.0840	Nainaram, Maganlal S/o.Deva Kantilal, Satish, Bhanwar, Praveen, Bharat S/o.Rama Jaravibai Wo.Rama, Gudiya D/o.Rama, Leela Bewa Jetha Prakash Dinesh, Gopal S/o.Jetha, Kaum Rajgar Brahmin, Sa.De.Khatedar
			2077/855	Private	Agricultural	0.0230	Lehari Bewa, Velaram, Lakshmi W/o.Goparam, Phoolaram, Bhangaram S/o.Uma Kaum Kumhar Sa.De.Khatedar
			844	Private	Open Well	0.0202	Leelaram, Shankar, Meetharam S/o.Mula Santoki Bewa Mula Badki Devi Bewa Mohan, Ishwar, Prakash, Punaram, Bharatkumar, Suresh S/o.Mohan Na.Ba.Kudarti vali Mata Badkidevi Bewa Mohan, Lakshmi Bewa Sankla, Vagaram, Talsaram, Rameshkumar S/o.Sankla, Dharma S/o. Jetha Bhuba S/o. Dhanna Jala S/o. Raja, Pukhraj, Ramesh S/o.Vagta, Panku D/o.Vagta, Shanti W/o.Vagta, Khetaram, Bheraram, Kaluram S/o. Shankar, Hiribai W/o.Shankar, Narayanlal, Otaram S/o.Kesa, Suji D/o.Kesa, Kaum Maali Sa.De. Khatedar
			2123/717	Private	Agricultural	0.0080	Otaram, Shankarlal, leelaram, Ravaram S/o.Rata, Vagaram, Tulsiram S/o.Choga heeradevi W/o.Choga, Kamla, Sita, Jasoda, Dariya D/o. Choga, Thana, Kheema, Tararam S/o.Natha kaum Mali Sa.De. Khatedar
			2157/560	Private	Agricultural	0.0055	Sanga Bewa Maga, Ramesh Bhanwar S/o.Maga Kaum Rawal Sa.De. Khatedar
			2001/722	Private	Residential	0.0160	Gram Panchayat, Virwada
			2035/1223	Private	Agricultural	0.0420	Pratap, Choga, Shankar S/o.Dana Kaum Kumhar Sa.De. Khatedar
			2047/1220	Private	Agricultural	0.0960	Ramsingh S/o. Mulsingh, Kaum Rajpoot, Sadeh Khatedar
			2215/1221	Govt	Non Agricultural	0.0090	Gair Mumkin Rasta Rajasthan Sarkar
			1992/868	Govt	Non Agricultural	0.0240	Gair Mumkin Nallah Rajasthan Sarkar
			1990/867	Govt	Agricultural	0.1290	Darga S/o. Magna kaum Dholi Sa.De. Gair Khatedar
			2050/869	Private	Agricultural	0.0182	Maga, Shankar, Badring S/o.Sama hi. 1/2 Nainaram, Maganlal S/o.Deva Maganlal, Kantilal, Satish, Bhanwar, Praveen, Bharat S/o.Rama , Jaravibai W/o.Rama, Gudiya D/o.Rama, Praksh, Dinesh, Gopal S/o.Jetha, Leela W/o.Jetha and Veema D/o.Jetha, hi. 1/2 Kaum Rajgar Bra.Sa.De. Khatedar
			2073/857	Private	Agricultural	0.0900	Santosh Bewa Dhana Ravaram Kishorkumar S/o.Dhana Savita Bewa Ragiya kishor S/o.Ragiya, Ranjeetkumar S/o.Jetiya, Lakshmi W/o.Jetiya, Praveena Surekha D/o.Jetiya, kaum Suaar Sa.De. Khatedar
			1939/852	Private	Agricultural	0.0379	Himmatram S/o.Natha, Kaum Kumhar Sa.De.Khatedar
			1236	Private	Agricultural	0.0255	Narbdadevi W/o.Sitaraam, Kaum Maali Sa.De. Khatedar
			767	Govt	Non Agricultural	0.0126	Rajasthan Sarkar (Payaau)
			Total			0.9910	
		(3) Jhadoli	2256	Private	Agricultural	0.2150	Bhupender Kumar S/o.Nathubhai, jati Purohit Sa.De.Khatedar
			2055/3445	Private	Agricultural	0.1896	Smt.Dharmibai W/o. Thanaram, Samrathlaal, Kantilaal S/o.Thanaram, Narbada Basanti Magni D/o.Thanaram, Kaum Purohit Sa.De.Khatedar
			2055/3443	Private	Agricultural	0.3161	Baduram S/o.Kishna, Arvind, Subhash

							S/o.Chunnilal, Kailash Devi D/o.Chunnilal, Jasoda Devi W/o.Chunnilal, Kaum Purohit Sa.De. Khatedaar
			2058/1	Private	Residential	0.1030	Manjulaben dharmpatni Kundanmal Jaati Jain Sa.Pindwada Khatedar
			Total			0.8237	
		(4) Jakar	918/592	Private	Agricultural	0.0833	Arjundan S/o.Murardan, Kaum Charan, Sa.De. Khatedar
			593	Private	Agricultural	0.0374	Arjundan S/o.Murardan, Kaum Charan, Sa.De. Khatedar
			597/3	Private	Agricultural	0.0190	Arjundan S/o.Murardan, Kaum Charan, Sa.De. Khatedar
			597/1	Private	Agricultural	0.0328	Smt.Sugankunwar W/o. Arjundan, Kaum Charan Sa.De. Khatedar
			597/2	Private	Agricultural	0.0381	Smt.Munnakunwar W/o. Pravaandan, Kaum Charan Sa.De. Khatedar
			531	Private	Agricultural	0.0422	Sukhdevsingh S/o.Chatardan, Munnakanwar W/o.Chatardan, Kaum Charan Sa.De. Khatedar
			1012/530	Private	Agricultural	0.0752	Sukhdevsingh S/o.Chatardan, Munnakanwar W/o.Chatardan, Kaum Charan Sa.De. Khatedar
			471	Govt	Non Agricultural	0.1521	Gair Mumkin Rasta Rajasthan Sarkar
			525	Private	Agricultural	0.0658	Kesa Veera S/o.Vaja Thuti, Divi D/o.Vaja Deva S/o. Sona Bada, Bheema, Veesa, Chunilal S/o.khema Lungi Bewa Khema Vardaram, Pataram Shankarlal bheraram S/o.Lakhma, Pepidevi W/o.Lakhmaji, Mani Poni D/o.Lakhma Savaram, Sujaram S/o.Lasaram, Samidevi W/o.Lasaram, Pushpa Champa D/o.Lasaram, Hakmaram S/o. Prema Hissa 3/4 Meghvanshi Vadaram, Pataram, Shankarlal Bheraram S/o.Lakhma, Pepidevi W/o.Lakhmaji, Mani Poni, D/o.Lakhma, Savaram Sujaram S/o.Lasaram, Samidevi W/o.Lasaram, Pushpa champa D/o.Lsaram, Hakma S/o. Prema Deva S/o. Sona Kesa, Veera S/o.Vaja, Thuti Divi D/o.Vaja va Lungi Beva Khema, Kaum Meghval 1/16 Himmatdan S/o. Berisaldan, Huabai Bewa Verisaldan, Jujardan S/o. Bhendman, Umedsingh, Mahendra S/o.Surajdan 1/16, Prabhusingh S/o. Sujandan 1/16 Sayarbai Bewa Ratandan Bhanwardan S/o. Ratandan Shivdan, Baludan S/o. Badandan 1/32, Rughunathdan S/o. Devidan Hi.1/32 Kaum Charan sa.deh.khatedar rahan Bhumi vikas Bank Sakha Pinwada, Kesa Veera S/o.Vaja, Divi, Thuti D/o.Vaja Magi W/o.Vaja ka hissa rahan
			1007/449	Private	Agricultural	0.0398	Hinglajdan S/o.Motidan, kaum Charan, Sa.De. Khatedar
			461	Private	Agricultural	0.0315	Kana S/o. Mana hi.1/2 Punma Parba S/o.Teja hi.1/2 kaum Meghvanshi Sa.De. Khatedar
			Total			0.6172	
		(5) Pindwara	2539/2	Private	Agricultural	0.0411	Smt.Meethibai W/o.Late Maganlal Jati Raval Sa.De. Khatedar
			2539/4	Private	Agricultural	0.0411	Maganlal S/o.Phusaji Jaati Mali Sa.Kojra Khatedar
			2539/1	Private	Agricultural	0.0411	Juharmal, jagidish, Kanhiyalal, Ashok Kumar S/o.Maga 1/5, Amrit, Bhanwar S/o.Choga, Amba, Teena, Indu D/o.Bharat, Sharda W/o.Bharat, Prema, Lallu S/o.Punma, kaum Rawal Brahmin Sa.De.Hansaram S/o. Velaji Kaum Chaudhari Sa.Nadol Road, Kotadi Tehsil Desuri Mangilal S/o. Devaji, kaum Chaudhari, Sa.Sirohi Road 4/5 Khatedar
			2539/6	Private	Agricultural	0.1644	Juharmal, jagidish, Kanhiyalal, Ashok

							Kumar S/o.Maga 1/5, Amrit, Bhanwar S/o.Choga, Amba, Teena, Indu D/o.Bharat, Sharda W/o.Bharat, Prema, Lallu S/o.Punma, kaum Rawal Brahmin Sa.DeH.Hansaram S/o. Velaji Kaum Chaudhari Sa.Nadol Road, Kotadi Tehsil Desuri Mangilal S/o. Devaji kaum Chaudhari Sa.Sirohi Road 4/5 Khatedar
			2525	Private	Agricultural	0.0190	Hirendrasingh Bhawanisingh S/o.Chatarsingh Jati Rajpoot Sa.Ajari Khatedar
			4046/2525	Private	Agricultural	0.0177	Hirendrasingh Bhawanisingh S/o.Chatarsingh Jati Rajpoot Sa.Ajari Khatedar
			4047/2525	Private	Agricultural	0.0177	Hirendrasingh Bhawanisingh S/o. Chatarsingh Jati Rajpoot Sa.Ajari Khatedar
			4044/2525	Private	Agricultural	0.0190	Bhagwati Kunwar W/o. Chatarsingh S/o.Ajari Khatedar
			4042/2525	Private	Agricultural	0.0171	Juharmal Jagdish Kanhiyalal Ashokkumar S/o. Maga Jati Rawal Brahmin Sa.DeH.Khatedar
			4045/2525	Private	Agricultural	0.0190	Chanderveersingh S/o.Pannasingh Jati Rajpoot R/o.Moharakala Tehsil Raipur Jila Pali Hal Nadiya Tehsil Pindwada Khatedar
			4043/2525	Private	Agricultural	0.0171	Kamlesh Kumar S/o.Maganlal Jati Mali Sa.Kojra Khatedar
			2524/1	Private	Agricultural	0.0177	Tulsiram S/o.Bhanaji Bhanaram S/o.Gamnaji Kaum Prajapat Sa.Ajari Khatedar
			2524/2	Private	Agricultural	0.0196	Valaram S/o.Ramaji Ramaram S/o.Bheekhai Kaum Prajapat Sa.Ajari Khatedar
			2322/1	Private	Residential 0.1012 Commercial 0.1011	0.2023	Jairam S/o.Chturbhujji Smt.Kamlabai, W/o. Shri Jairam, Shri Kheemashankar S/o.Chaturbhujji, Jati Purohit Sa.Dungri Khatedar
			2322/2	Private	Residential 0.0253 Commercial 0.1012	0.1265	Kantilal S/o.Chaturbhujji, Smt.Leela Bahan W/o.Sh.Kheemashankar Smt.Leeladevi W/o.Kantilal jati Purohit sa. Dungari Khatedar
			2348/2	Private	Agricultural	0.0710	Banwarilal S/o. Nathulal Kaum Agarwal Sa.DeH.Khatedar
			5317/2313	Govt	Non Agricultural	0.0103	Magra Rajasthan Sarkar
			2314	Private	Agricultural	0.0761	Naresh Mahendra S/o.Gopalram, Rekha urph Hemlata D/o.Gopalram, Kanya W/o. Gopalram 1/4, Kaum Luhar, Nainaram S/o.Ragaji 3/4 Jati Meena Sa.DeH (Sirohi Road), Khatedar
			5313/2306	Govt	Non Agricultural	0.0578	Gairmumkin Rasta Rajsthan Sarkar
			2258	Private	Agricultural	0.0272	Mohanlal, Mancharam, Achlaram Harjiram, Hariram, Rameshlal S/o.Punaram, Magaram, Manaram Noparam S/o.Dheera, kaum Mena Sa.DeH.Khatedar
			Total			1.0228	
			Total			14.5737	

[F. No. NHAI/BOT-II/11012/01/2007/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.